

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 30] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 26—अगस्त 1, 2014 (श्रावण 4, 1936)

No. 30] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 26—AUGUST 1, 2014 (SRAVANA 4, 1936)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 1 जुलाई 2014

सं. आरएस/8/2/2014/53-कार्मिक—राज्य सभा के माननीय सभापति ने डा. डी. बी. सिंह, सीएसएस (सेवानिवृत्त) को राज्य सभा सचिवालय में अपर सचिव के रैंक और वेतन में 1 जुलाई, 2014 से एक वर्ष की अवधि के लिए अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया है।

एस. रंगराजन, संयुक्त निदेशक

योजना आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 30 मई 2014

सं. ए-12020/03/04-प्रशा.।।।—राष्ट्रपति, योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया द्वारा दिनांक 26/05/2014 (पूर्वाहन) को पद त्यागने के फलस्वरूप योजना आयोग के उपाध्यक्ष के अतिरिक्त निजी सचिव श्री एम.वी.वी.एल.एन. मूर्थी को 6 दिन की समापन अवधि प्रदान करने के पश्चात उनकी सेवाओं को दिनांक 31/05/2014 (अपराहन) से समाप्त करते हैं।

गुलवीना बधान, अवर सचिव

दिनांक 2 जून 2014

सं. ए-11013/04/09-प्रशा.।।।—श्री सौमित्र चौधरी, सदस्य, योजना आयोग द्वारा दिनांक 26-05-2014 (पूर्वाहन) को कार्यभार त्यागने के फलस्वरूप राष्ट्रपति श्री सौमित्र चौधरी, सदस्य योजना आयोग के निजी सचिव श्री श्याम लाल को 15 दिन की समापन अवधि प्रदान करने के पश्चात उनकी सेवाओं को दिनांक 09-06-2014 (अपराहन) से समाप्त करते हैं।

गुलवीना बधान, अवर सचिव

सं. ए-11013/10/2009-प्रशा.।।।—श्री अरूण मयरा द्वारा योजना आयोग के सदस्य का कार्यभार त्यागने के फलस्वरूप राष्ट्रपति श्री अरूण मयरा, सदस्य, योजना आयोग के निजी सचिव श्री ए. के. चक्रवर्ती को 30 दिन की समापन अवधि प्रदान करने के बाद उनकी सेवाओं को दिनांक 24.06.2014 (अपराहन) से समाप्त करते हैं।

गुलवीना बधान, अवर सचिव

सं. ए-11013/20/2012-प्रशासन.।।।—संसदीय कार्य और योजना राज्य मंत्री श्री राजीव शुक्ल द्वारा 26.05.2014(पूर्वाहन) से अपना कार्यभार त्यागने के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति श्री शुक्ल के सहायक निजी सचिव के रूप में कार्यरत गैर-सरकारी अधिकारी श्री संजीव कुमार राव की सेवाओं को, उन्हें 30 दिनों की समापन अवधि प्रदान करते हुए, 24.06.2014(अपराहन) से समाप्त करते हैं।

गुलवीना बधान, अवर सचिव

सं. ए-12020/07/09-प्रशा.।।।—डॉ. नरेन्द्र जाधव द्वारा दिनांक 26-05-2014 (पूर्वाहन) को योजना आयोग के सदस्य का कार्यभार त्यागने के फलस्वरूप राष्ट्रपति डॉ. नरेन्द्र जाधव सदस्य, योजना आयोग के निजी सचिव के रूप में कार्यरत गैर-सरकारी अधिकारी श्री कैलाशनाथ अधिकारी को 15 दिनों की समापन अवधि प्रदान करने के पश्चात उनकी सेवाओं को दिनांक 09-06-2014 (अपराहन) से समाप्त करते हैं।

गुलवीना बधान, अवर सचिव

सं. ए-12020/07/09-प्रशा.।।।—राष्ट्रपति, योजना आयोग के सदस्य डॉ नरेन्द्र जाधव द्वारा दिनांक 26/05/2014 (पूर्वाहन) को पद त्यागने के फलस्वरूप डॉ नरेन्द्र जाधव सदस्य, योजना आयोग के रूप में कार्यरत प्रथम वैयक्तिक सहायक और गैर सरकारी अधिकारी श्री संदीप केम्बल को 15 दिन की समापन अवधि प्रदान करने के पश्चात उनकी सेवाओं को दिनांक 09/06/2014 (अपराहन) से समाप्त करते हैं।

गुलवीना बधान, अवर सचिव

सं. ए-11013/20/2012-प्रशा.।।।—श्री राजीव शुक्ल द्वारा संसदीय कार्य और योजना राज्य मंत्री के रूप में 26.05.2014 (पूर्वाहन) से कार्यभार त्यागने के फलस्वरूप राष्ट्रपति, संसदीय कार्य और योजना राज्य मंत्री के अतिरिक्त निजी सचिव और सीएसएस

अधिकारी श्री हरीश कुमार की प्रतिनियुक्ति को, उन्हें 30 दिनों की समापन अवधि प्रदान करने के बाद, 24.06.2014 (अपराहन) से समाप्त करते हैं।

2. प्रतिनियुक्ति की समाप्ति पर श्री हरीश कुमार को 24.06.2014 (अपराहन) से कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग में प्रत्यावर्तित किया जाता है। उन्हें निदेश दिया जाता है कि वे अपनी अगली तैनाती के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को रिपोर्ट करें।

गुलवीना बधान, अवर सचिव

दिनांक 3 जून 2014

सं. ए-12020/03/04-प्रशासन.।।।—योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री मंटेक सिंह अहलुवालिया द्वारा 26.05.2014(पूर्वाहन) से अपना कार्यभार त्यागने के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति श्री अहलुवालिया के सहायक निजी सचिव श्री एच. एस. चव्हाण की प्रतिनियुक्ति को, 30 दिनों की समापन अवधि प्रदान करते हुए, 24.06.2014(पूर्वाहन) से समाप्त करते हैं।

2. प्रतिनियुक्ति की समाप्ति पर श्री एच.एस. चव्हाण को प्रशासन-3 अनुभाग, योजना आयोग में प्रत्यावर्तित किया जाता है।

गुलवीना बधान, अवर सचिव

सं.ए-12020/06/04-प्रशा.।।।—योजना आयोग की सदस्य डॉ. सईदा हमीद द्वारा दिनांक 26-05-2014 (पूर्वाहन) को कार्यभार त्यागने के फलस्वरूप राष्ट्रपति सदस्य (डॉ. सईदा हमीद), योजना आयोग के गैर-सरकारी कर्मचारी और प्रथम वैयक्तिक सहायक श्री अनिल कुमार रावत को 30 दिन की समापन अवधि प्रदान करने के पश्चात राष्ट्रपति उनकी सेवाओं को दिनांक 24-06-2014 (अपराहन) से समाप्त करते हैं।

गुलवीना बधान, अवर सचिव

सं. ए-12020/03/04-प्रशासन.।।।—योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री मंटेक सिंह अहलुवालिया द्वारा 26.05.2014(पूर्वाहन) से अपना कार्यभार त्यागने के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति श्री अहलुवालिया के अपर निजी सचिव श्री एम. डी. नरूला की सेवाओं को, उन्हें 30 दिनों की समापन अवधि प्रदान करते हुए, 24.06.2014(अपराहन) से समाप्त करते हैं।

गुलवीना बधान, अवर सचिव

दिनांक 4 जून 2014

सं. ए-11013/05/09-प्रशासन.।।।—योजना आयोग के सदस्य डॉ. अभिजीत सेन द्वारा 26.05.2014(पूर्वाहन) से अपना कार्यभार त्यागने के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति डॉ. सेन के प्रथम वैयक्तिक सहायक श्री राहुलजी चेन्ना की प्रतिनियुक्ति को, उन्हें 15 दिनों की समापन अवधि प्रदान करते हुए, 09.06.2014(अपराहन) से समाप्त करते हैं।

2. प्रतिनियुक्ति समाप्त होने के उपरान्त, श्री राहुलजी चेन्ना को जल संसाधन मंत्रालय में प्रत्यावर्तित किया जाता है। उन्हें 10.06.2014 से 27.06.2014 तक का 18 दिनों का अर्जित अवकाश प्रदान किया गया है।

गुलवीना बधान, अवर सचिव

सं.ए-11013/09/09-प्रशा.।।।—श्री बी. के. चतुर्वेदी के योजना आयोग के सदस्य के रूप में दिनांक 26.05.2014 (पूर्वाहन) को कार्यभार त्यागने के फलस्वरूप राष्ट्रपति, श्री बी. के. चतुर्वेदी, योजना आयोग के सदस्य के निजी सचिव श्री पी. शंकर को 30 दिनों की समापन अवधि प्रदान करने के बाद दिनांक 24.06.2014 (अपराहन) से उनकी प्रतिनियुक्ति समाप्त करते हैं।

2. प्रतिनियुक्ति की समाप्ति के पश्चात श्री पी. शंकर को प्रशासन-3 अनुभाग, योजना आयोग में प्रत्यावर्तित किया जाता है।

गुलवीना बधान, अवर सचिव

सं.ए-11013/05/09-प्रशा.III—डॉ. अभिजीन सेन के योजना आयोग के सदस्य के रूप में दिनांक 26.05.2014 (पूर्वाहन) को कार्यभार त्यागने के फलस्वरूप राष्ट्रपति, डॉ. अभिजीन सेन, योजना आयोग के सदस्य के निजी सचिव श्री राजेश शर्मा को 30 दिनों की समापन अवधि प्रदान करने के बाद दिनांक 24.06.2014 (अपराहन) से उनकी प्रतिनियुक्ति समाप्त करते हैं।

2. प्रतिनियुक्ति की समाप्ति के पश्चात श्री राजेश कुमार को प्रशासन-3 अनुभाग, योजना आयोग में प्रत्यावर्तित किया जाता है।

गुलवीना बधान, अवर सचिव

सं.ए-11013/09/09-प्रशा.III—श्री बी. के. चतुर्वेदी के योजना आयोग के सदस्य के रूप में दिनांक 26.05.2014 (पूर्वाहन) को कार्यभार त्यागने के फलस्वरूप राष्ट्रपति, श्री बी. के. चतुर्वेदी, योजना आयोग के सदस्य के प्रथम वैयक्तिक सहायक श्री के. कृष्ण राव को 30 दिनों की समापन अवधि प्रदान करने के बाद दिनांक 24.06.2014 (अपराहन) से उनकी प्रतिनियुक्ति समाप्त करते हैं।

2. प्रतिनियुक्ति की समाप्ति के पश्चात श्री के. कृष्ण राव को प्रशासन-3 अनुभाग, योजना आयोग में प्रत्यावर्तित किया जाता है।

गुलवीना बधान, अवर सचिव

सं.ए-11013/05/09-प्रशा.III—डॉ. अभिजीत सेन के योजना आयोग के सदस्य के रूप में दिनांक 26.05.2014 (पूर्वाहन) को कार्यभार त्यागने के फलस्वरूप राष्ट्रपति, डॉ. अभिजीत सेन, योजना आयोग के सदस्य के प्रथम वैयक्तिक सहायक श्री डी. सतीश को 15 दिनों की समापन अवधि प्रदान करने के बाद दिनांक 09.06.2014 (अपराहन) से उनकी प्रतिनियुक्ति समाप्त करते हैं।

2. प्रतिनियुक्ति की समाप्ति के पश्चात श्री डी. सतीश को कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय में प्रत्यावर्तित किया जाता है। उन्हें दिनांक 10.06.2014 से 27.06.2014 तक 18 दिनों का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है।

गुलवीना बधान, अवर सचिव

दिनांक 5 जून 2014

सं. ए-11013/13/09-प्रशा.III—डा. सी. रंगराजन द्वारा प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष के रूप में 26.05.2014 (पूर्वाहन) से कार्यभार त्यागने के फलस्वरूप राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष डा. सी. रंगराजन की निजी सचिव सुश्री सुशीला पंजवानी की सेवाओं को, उन्हें 30 दिनों की समापन अवधि प्रदान करने के बाद, 24.06.2014 (अपराहन) से समाप्त करते हैं।

गुलवीना बधान, अवर सचिव

सं.ए-11013/13/09-प्रशा.III—राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों द्वारा दिनांक 26/05/2014 (पूर्वाहन) से कार्यभार त्यागने के फलस्वरूप योजना आयोग के अंशकालिक सदस्यों के निजी स्टाफ के रूप में कार्यरत निजी सचिव और गैर-सरकारी अधिकारी श्रीमती सरिता पंजवानी को 30 दिन की समापन अवधि प्रदान करने के पश्चात उनकी सेवाओं को दिनांक 24/06/2014 (अपराहन) से समाप्त करते हैं।

गुलवीना बधान, अवर सचिव

दिनांक 6 जून 2014

सं. ए-12020/4/09-प्रशा.III—डा. के. कस्तूरीरंगन द्वारा योजना आयोग के सदस्य के रूप में 26.05.2014 (पूर्वाहन) से कार्यभार त्यागने के फलस्वरूप राष्ट्रपति, डा. के. कस्तूरीरंगन, सदस्य, योजना आयोग के प्रथम वैयक्तिक सहायक श्री नवीन चंद की प्रतिनियुक्ति को, उन्हें 15 दिनों की समापन अवधि प्रदान करने के बाद, 09.06.2014 (अपराहन) से समाप्त करते हैं।

2. प्रतिनियुक्ति की समाप्ति पर श्री नवीन चंद को वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में प्रत्यावर्तित किया जाता है।

गुलवीना बंधान, अवर सचिव

सं.ए-12020/4/09-प्रशा.।।।—डॉ. के. कस्तूरीरंगन द्वारा दिनांक 20-05-2014 (पूर्वाह्न) को योजना आयोग के सदस्य का कार्यभार त्यागने के फलस्वरूप राष्ट्रपति डॉ. के. कस्तूरीरंगन, सदस्य, योजना आयोग के निजी सचिव श्री टी. एस. वेंकटरमणी को 30 दिन की समापन अवधि प्रदान करने के बाद उनकी सेवाओं को दिनांक 24-06-2014 (अपराह्न) से समाप्त करते हैं।

गुलवीना बंधान, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 27 जून 2014

सं.ए-11013/03/09-प्रशा.।।।—योजना आयोग के दिनांक 3 जून, 2014 की समसंख्यक अधिसूचना के पैरा-2 में आंशिक संशोधन करते हुए श्री आर.के. गंभीर को दिनांक 24.06.2014 (अपराह्न) से वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय में प्रत्यावर्तित किया जाता है।

2. उन्हें दिनांक 25.06.2014 से 30.06.2014 तक 6 दिनों का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है।

टी. नन्द कुमार, अवर सचिव

विधि एवं न्याय मंत्रालय
(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 6 जून 2014

सं. ए. 12025(i)/1/2007-प्रशा-।(वि.वि.)—राष्ट्रपति सहर्ष विधि एवं न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग में उप विधायी परामर्शी(भारतीय विधि सेवा का ग्रेड III) श्री उदय कुमारा को विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग में तदर्थ आधार पर अपर विधायी परामर्शी (भारतीय विधि सेवा का ग्रेड II) के पद पर रूपए 37400-67000/- के वेतन बैंड-4 और रूपए 8700/- के ग्रेड वेतन में दिनांक 06.06.2014 की पूर्वाह्न से तीन माह की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

2. यह तदर्थ नियुक्ति श्री उदय कुमारा को अपर विधायी परामर्शी (भारतीय विधि सेवा का ग्रेड II) के ग्रेड में नियमित नियुक्ति के लिए न तो कोई दावा करने का अधिकार प्रदान करेगी और न ही उनके द्वारा प्रदत्त तदर्थ सेवाओं की गणना इस ग्रेड में वरिष्ठता के प्रयोजनार्थ अथवा अगले उच्चतर ग्रेड में उनकी प्रोन्नति के लिए की जाएगी।

बी.एम. शर्मा, उप सचिव

दिनांक 16 जून 2014

सं. ए. 32013/2/2012-प्रशा-।(वि.वि.)—विभागीय प्रोन्नति समिति की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित सहायक विधायी परामर्शियों(भारतीय विधि सेवा का ग्रेड IV)को विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग में नियमित आधार पर उप विधायी परामर्शी (भारतीय विधि सेवा का ग्रेड III) के पद पर रूपए 15,600-39,100/- के वेतन बैंड-3 और रूपए 7,600/- के ग्रेड वेतन में दिनांक 16 जून, 2014 की पूर्वाह्न से तथा अगले आदेशों तक नियुक्त करते हैं: -

- I. श्री आर.के. पट्टनायक
- II. श्री के.वी. कुमार

2. उपर्युक्त उल्लिखित अधिकारी इस विभाग में उप विधायी परामर्शी (भारतीय विधि सेवा का ग्रेड III) के पद पर उनकी नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे।

बी.एम. शर्मा, उप सचिव

दिनांक 27 जून 2014

सं. ए. 32013/2/2009-प्रशा-I(वि.वि.)—डा. एन. आर. बटु बनाम भारत संघ तथा अन्य शीर्षक वाले ओ.ए. सं. 3594/2011 के संबंध में माननीय केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 11.10.2013 को जारी आदेश के अनुसरण में तथा दिनांक 13.06.2014 को समीक्षा विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रपति दिनांक 13.08.2013 की समसंख्यक अधिसूचना का अधिक्रमण करते हुए निम्नलिखित उप विधायी परामर्शियों (भारतीय विधि सेवा का ग्रेड III) को विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग में नियमित आधार पर अपर विधायी परामर्शी (भारतीय विधि सेवा का ग्रेड II) के पद पर रूपए 37,400—67,000/- के वेतन बैंड-4 और रूपए 8,700/- के ग्रेड वेतन में दिनांक 12 अगस्त, 2013 की पूर्वाह्न से तथा अगले आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं : -

(i) श्री के.आर. साजी कुमार

(ii) श्री चंदर वीर

2. उपर्युक्त उल्लिखित अधिकारी 12.08.2013 से दो वर्षों की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे।

3. अपर विधायी परामर्शी के पद पर श्री के.आर. साजी कुमार की नियुक्ति की तिथि भारत के उच्चतम न्यायालय में उनके द्वारा दायर स्पेशल लीव पेटिशन (एस एल पी) (सिविल) सं. 1177/2014 के अंतिम निर्णय के परिणाम के अधीन होगी।

बी.एम. शर्मा, उप सचिव

सं. ए. 32013/2/2009-प्रशा-I(वि.वि.)—डा. एन. आर. बटु बनाम भारत संघ तथा अन्य शीर्षक वाले ओ.ए. सं. 3594/2011 के संबंध में माननीय केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 11.10.2013 को जारी आदेश के अनुसरण में तथा दिनांक 13.06.2014 को समीक्षा विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रपति दिनांक 16.12.2011 की समसंख्यक अधिसूचना का अधिक्रमण करते हुए डा. एन. आर. बटु, उप विधायी परामर्शी (भारतीय विधि सेवा का ग्रेड III) को विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग में नियमित आधार पर अपर विधायी परामर्शी (भारतीय विधि सेवा का ग्रेड II) के पद पर रूपए 37,400—67,000/- के वेतन बैंड-4 और रूपए 8,700/- के ग्रेड वेतन में दिनांक 14.12.2011 की पूर्वाह्न से तथा अगले आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

2. अपर विधायी परामर्शी के पद पर डा. एन. आर. बटु की नियुक्ति की तिथि भारत के उच्चतम न्यायालय में श्री के.आर. साजी कुमार, अपर विधायी परामर्शी द्वारा दायर स्पेशल लीव पेटिशन (एस एल पी) (सिविल) सं. 1177/2014 के अंतिम निर्णय के परिणाम के अधीन होगी।

बी.एम. शर्मा, उप सचिव

दिनांक 30 जून 2014

सं. ए. 12025(i)/1/2007-पार्ट-प्रशा-I(वि.वि.)—राष्ट्रपति सहर्ष विधि एवं न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग में श्री ईश्वर चंदर शर्मा, सहायक विधायी परामर्शी (भारतीय विधि सेवा का ग्रेड IV) को विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग में तदर्थ आधार पर उप विधायी परामर्शी (भारतीय विधि सेवा का ग्रेड III) के पद पर रूपए 15,600—39,100/- के वेतन बैंड और रूपए 7,600/- के ग्रेड वेतन में दिनांक 30 जून, 2014 से तीन माह की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

2. यह तदर्थ नियुक्ति उन्हें उप विधायी परामर्शी (भारतीय विधि सेवा का ग्रेड III) के ग्रेड में नियमित नियुक्ति के लिए न तो कोई दावा करने का अधिकार प्रदान करेगी और न ही उनके द्वारा प्रदत्त तदर्थ सेवाओं की गणना इस ग्रेड में वरिष्ठता के प्रयोजनार्थ अथवा अगले उच्चतर ग्रेड में उनकी प्रोन्नति के लिए की जाएगी।

बी.एम. शर्मा, उप सचिव

विधि कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 5 जून 2014

सं.ए-12034/01/2013-प्रशा0-IV(वि.का.)—श्री कपिल सिब्बल के दिनांक 26.5.2014 को विधि और न्याय मंत्री के पद का कार्यभार छोड़ने के परिणामस्वरूप, भूतपूर्व विधि और न्याय मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) की विशेष कार्य अधिकारी सुश्री ममता वर्मा

(आईआईएस:94) की सेवाएं उन्हें प्रदत्त दिनांक 19.05.2014 से 18.07.2014 तक के अर्जित अवकाश के उपरांत उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से पत्र सूचना कार्यालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय को सौंपी जाती हैं।

आशा सोटा, अवर सचिव

सं. ए.12034/01/2013-प्रशा0IV(वि0का0)—श्री कपिल सिब्बल के दिनांक 26.05.2014 को विधि और न्याय मंत्री के पद का कार्यभार छोड़ने के परिणामस्वरूप, तथा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 26.05.2014 के का.जा.सं.8/50/2013-सीएस.11(सी) में निहित अनुदेशों के अनुसार, श्री आलोक कुमार, भूतपूर्व विधि और न्याय मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) के सहायक निजी सचिव को दिनांक 27.05.2014 से 25.06.2014 तक 30 दिन की परिसमापन अवधि मंजूर की जाती है।

2. उक्त परिसमापन अवधि समाप्त होने पर, श्री आलोक कुमार अधोहस्ताक्षरी को रिपोर्ट करेंगे।

आशा सोटा, अवर सचिव

दिनांक 30 जून 2014

सं. ए-38012/01/2014-प्रशा0-IV(वि.का.)—अधिवर्षिता की आयु होने पर, श्री आर. रघुपति, अपर सचिव दिनांक 30 जून, 2014 के अपराहन को सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए हैं।

आशा सोटा, अवर सचिव

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 9 जुलाई 2014

सं. 23012/05/2013-अ.भा.से- III—श्रीमती वी. शांथा, भा.प्र.से. (तमिलनाडु) को उनका नाम श्रीमती वी. शांथा से बदलकर श्रीमती वी. सांथा करने की अनुमति दी गई है। तदनुसार सभी सरकारी प्रयोजनों में श्रीमती वी. सांथा के रूप में जानी जाएंगी।

नवनीत मिश्रा, अवर सचिव

विदेश मंत्रालय
प्रोटोकॉल उप प्रमुख (एफ) का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 7 जुलाई 2014

सं. डी111/460/सीएफ-03/2014—भारत के राष्ट्रपति चेन्नई में रूसी परिसंघ के प्रधान कौंसल के रूप में श्री सेर्गेय ल्वोवीच कोटोव की नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से मान्यता प्रदान करते हैं।

श्री सेर्गेय ल्वोवीच कोटोव के कौंसली क्षेत्राधिकार में तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश राज्य तथा केन्द्रशासित प्रदेश पुदुच्चेरी होगा, जिसका केंद्र चेन्नई होगा।

संजीव खंडूरी, प्रोटोकॉल उप प्रमुख (एफ)

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 29 अप्रैल 2014

सं. ए-35011/1/2013-एडी.ईडी—भारत के राष्ट्रपति, श्री कमलेश कुमार गुप्ता, उप निदेशक, जोखिम प्रबंधन प्रभाग (आरएमडी), मुंबई को दिनांक 3.02.2014 (पूर्वाहन) से 1.02.2015 (अपराहन) तक प्रारंभ में एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक,

इनमें से जो भी पहले हो, 15,600—39,100/- रु. + ग्रेड वेतन 6,600/- रु. के वेतन बैंड 3 में तदर्थ प्रतिनियुक्ति आधार पर प्रवर्तन निदेशालय, मुंबई में उप प्रवर्तन निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

आर.एन.सिंह, अवर सचिव

सं. ए-35011/1/2013-एडी.ईडी—भारत के राष्ट्रपति, श्री विकास सिंह, उप निदेशक, आयकर (अन्वेषण) यूनिट-I (2), दिल्ली-I को दिनांक 13.02.2014 (पूर्वाहन) से 12.02.2015 (अपराहन) तक प्रारंभ में एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, 15,600—39,100/- रु. + ग्रेड वेतन 6,600/- रु. के वेतन बैंड 3 में तदर्थ प्रतिनियुक्ति आधार पर प्रवर्तन निदेशालय, दिल्ली में उप प्रवर्तन निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

आर.एन.सिंह, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 31 मई 2014

सं. के-11022/9/2014-एडी.ईडी—राजस्व विभाग में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से श्री विवेक प्रसाद, संयुक्त प्रवर्तन निदेशक, लखनऊ को दिनांक 31.5.2014 (अपराहन) से व्यक्तिगत कारणों से समय-पूर्व अपने मूल काडर में प्रत्यावर्तित करने की अनुमति दी जाती है। उन्हें दिनांक 2.6.2014 से 31.7.2014 तक 60 दिनों के अर्जित अवकाश की मंजूरी भी दी जाती है।

राजेन्द्र कुमार, अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली—110108, दिनांक 9 जुलाई 2014

सं. ए. 12025/06/2013—सी.एच.एस.।—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डा. साँत्वना पाण्डे को दिनांक 04.03.2014 के पूर्वाहन से आगामी आदेशों तक पीबी-3 के वेतनमान रु. 15,600—39,100/- + 5,400 रु. ग्रेड वेतन में केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थायी रूप से नियुक्त करते हैं। डा. साँत्वना पाण्डे को केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात किया जाता है। डा. साँत्वना पाण्डे नियुक्ति की तारीख से 2 वर्षों तक परीक्षा पर रहेंगे।

एम.के. शरवर, अवर सचिव

दिनांक 14 जुलाई 2014

सं. ए. 12025/158/2010-सीएचएस 1—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. तरुण चन्द्र को दिनांक 22.10.2013 के पूर्वाहन से आगामी आदेशों तक पीबी-3 के वेतनमान (15,600—39,100/- रूपए) + ग्रेड वेतन 5,400/- रूपए में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थायी रूप से नियुक्त करते हैं। डॉ. तरुण चन्द्र को केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, कानपुर के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है। डॉ. तरुण चन्द्र नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की परीक्षा अवधि पर रहेंगे।

एम. के. शरवर, अवर सचिव

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 13 मई 2014

सं.- ए-38013/8/2013-प्रशा.-I—श्री प्रकाश चन्द्र, तकनीकी अधिकारी, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31.03.2014 (अपराहन) को सरकारी सेवा से निवृत्त हुए।

जितेन्द्र सिंह, उप निदेशक (प्रशा.)

सं.- ए-38012/7/2013-प्रशा.-I—श्री बक्सी राम, निदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31.03.2014 (अपराहन) को सरकारी सेवा से निवृत्त हुए।

जितेन्द्र सिंह, उप निदेशक (प्रशा.)

कृषि मंत्रालय
(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 20 जून 2014

सं. ए.19012/4/2014-आ.प्र.।—वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामले विभाग के फा.सं. 13016/4/2014-आईईएस के तहत जारी दिनांक 19.5.2014 के आदेश सं. पी-4/2014 के द्वारा श्री सुनील कुमार गुप्ता को आईईएस के ग्रेड IV (जेटीएस) के पद पर उनकी पदोन्नति तथा कृषि लागत तथा मूल्य आयोग में नियुक्ति होने के परिणामस्वरूप 04.6.2010 के पूर्वाह्न से कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कृषि एवं सहकारिता विभाग में वेतन बैंड-3 (15,600-39,100/- रु.) + 5,400/- रु. की ग्रेड पे में सहायक निदेशक के पद पर नियुक्त किया जाता है।

ए. के. अरोड़ा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 27 जून 2014

सं. 32013/6/2013-पीपी-स्थापना—राष्ट्रपति, अगले आदेशों तक निम्नलिखित अधिकारियों को संयुक्त निदेशक (पादप रोग निदान), सामान्य केन्द्रीय सेवा-क, पे-बैंड-III (15,600-39,100/- रुपये) व ग्रेड पे 7,600/- रुपये में पौध संरक्षण संगरोध तथा भण्डारण निदेशालय, फरीदाबाद में प्रोन्नति आधार पर नियुक्त करते हैं:-

1. श्री शिव सागर वर्मा 05.05.2014 से - (पूर्वाह्न)
2. डॉ. वी. के. श्रीवास्तव 01.05.2014 से - (पूर्वाह्न)

एम. एल. अटल, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 9 जुलाई 2014

शुद्धिपत्र

सं. 32013/02/2012-स्थापना—इस विभाग द्वारा जारी दिनांक 28.10.2013 के समसांख्यिक अधिसूचना के संदर्भ में।

क्रम संख्या 8 में उल्लेखित “आशीष कुमार तारा चंद बागडे” के स्थान पर “आशीषकुमार टी. बागडे” पढ़ा जाए।

ब्रजेश गोडरा, अवर सचिव

पंचायती राज मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 1 जुलाई 2014

सं.ए.-11011/2/2014-स्थापना।—राष्ट्रपति महोदय ने सुश्री शारदा मुरलीधरन गोमती, भा.प्र.से. (केरल:90) को पे बैंड (पीबी-4) के 37,400-67,000/- रु. जमा ग्रेड पे 10,000/-रु. में पंचायती राज मंत्रालय में दिनांक 15 मई, 2014 के पूर्वाह्न से संयुक्त सचिव के तौर पर नियुक्त किया है।

आर. शिवा कुमार, अवर सचिव

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 11 जून 2014

सं. 4(944)/14-का.।—राष्ट्रपति जी ने श्री क्षितिज कुशाग्र (कर्मचारी कोड सं. 1118) को इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में दिनांक 05.06.2014 के पूर्वाह्न से 7600/-रु. के ग्रेड वेतन सहित 15,600-39,100/-रु. के वेतन बैंड-3 में अस्थाई तौर पर वैज्ञानिक ‘डी’ नियुक्त किया है।

2. वे उपर्युक्त वेतन बैंड में 29,500/-रु. (ग्रेड वेतन सहित) और समय-समय पर नियमों और आदेशों के अनुसार मिलने वाले भत्ते आहरित करेंगे।

3. वे नियुक्ति की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए परीक्षाधीन रहेंगे।

विनोद कुमार, उप निदेशक

दिनांक 25 जून 2014

सं. 4(950)/14-का.।—राष्ट्रपति जी ने श्री राजेश्वर सिंह जंवर (कर्मचारी कोड सं. 1125) को इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में दिनांक 24.06.2014 के पूर्वाह्न से 7,600/-रु. के ग्रेड वेतन सहित 15,600-39,100/-रु. के वेतन बैंड-3 में अस्थाई तौर पर वैज्ञानिक 'डी' नियुक्त किया है।

2. वे नियुक्ति की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए परीक्षाधीन रहेंगे।

विनोद कुमार, उप निदेशक

दिनांक 30 जून 2014

सं. 4(951)/14-का.।—राष्ट्रपति जी ने श्री निशित गुप्ता (कर्मचारी कोड सं. 1126) को इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में दिनांक 30.06.2014 के पूर्वाह्न से 6600/-रु. के ग्रेड वेतन सहित 15600-39100/-रु. के वेतन बैंड-3 में अस्थाई तौर पर वैज्ञानिक 'सी' नियुक्त किया है।

2. वे नियुक्ति की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए परीक्षाधीन रहेंगे।

विनोद कुमार, उप निदेशक

दिनांक 2 जुलाई 2014

सं. 4(952)/14-का.।—राष्ट्रपति जी ने डॉ. संगीता सेमवाल (कर्मचारी कोड सं. 1127) को इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में दिनांक 01.07.2014 के पूर्वाह्न से 6,600/- रु. के ग्रेड वेतन सहित 15,600-39,100/- रु. के वेतन बैंड-3 में अस्थाई तौर पर वैज्ञानिक 'सी' नियुक्त किया है।

2. वे नियुक्ति की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए परीक्षाधीन रहेंगी।

विनोद कुमार, उप निदेशक

नई दिल्ली-110003, दिनांक 17 जून 2014

सं. 4(948)/14-का.।—राष्ट्रपति जी ने श्री विश्वास श्रीवास्तव (कर्मचारी कोड सं. 1123) को इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में दिनांक 16.06.2014 के पूर्वाह्न से 5400/-रु. के ग्रेड वेतन सहित 15600-39100/-रु. के वेतन बैंड-3 में अस्थाई तौर पर वैज्ञानिक 'बी' नियुक्त किया है।

2. वे उपर्युक्त वेतन बैंड में 21,000/-रु. (ग्रेड वेतन सहित) और समय-समय पर नियमों और आदेशों के अनुसार मिलने वाले भत्ते आहरित करेंगे।

3. वे नियुक्ति की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए परीक्षाधीन रहेंगे।

गिरीश सहाय, संयुक्त निदेशक

दिनांक 18 जून 2014

सं. 4(949)/14-का.।—राष्ट्रपति जी ने श्री नवीन कुमार (कर्मचारी कोड सं. 1124) को इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में दिनांक 17.06.2014 के पूर्वाह्न से 6600/-रु. के ग्रेड वेतन सहित 15600-39100/-रु. के वेतन बैंड-3 में अस्थाई तौर पर वैज्ञानिक 'सी' नियुक्त किया है।

2. वे उपर्युक्त वेतन बैंड में 25,350/-रु. (ग्रेड वेतन सहित) और समय-समय पर नियमों और आदेशों के अनुसार मिलने वाले भत्ते आहरित करेंगे।

3. वे नियुक्ति की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगे।

गिरीश सहाय, संयुक्त निदेशक

श्रम और रोजगार मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 8 जुलाई, 2014

सं. ए-31011/04/2012 -सीएलएस-।—राष्ट्रपति, केन्द्रीय श्रम सेवा (सीएलएस) के निम्नलिखित कनिष्ठ टाइम स्केल (जेटीएस) अधिकारियों की पदोन्नति पर नियमित वरिष्ठ टाइम स्केल (एसटीएस) अधिकारी के पद पर पीबी-3 (15,600-39,100) + वेतन ग्रेड 6600/- रुपये के तदनुसूची वेतनमान में प्रत्येक के नाम के आगे दर्शाई गई तिथि से नियुक्ति करते हैं:-

क्र. सं.	अधिकारियों के नाम	पदोन्नति की तिथि
1.	श्री एस.जी.सोनवाले	12-09-2013 (पूर्वाह्न)
2.	श्री करम चन्द	02-09-2013
3.	श्री अम्बीश शर्मा	20-08-2013 (पूर्वाह्न)
4.	श्री गडू सिंह राठौर	18-09-2013 (पूर्वाह्न)
5.	श्री वी.मुथुमनीकम	23.12.2013 (पूर्वाह्न)
6.	श्री नारायण चन्द्रा परीदा	07-10-2013 (पूर्वाह्न)
7.	श्री कुलवंत सिंह गुरु	27-09-2013 (पूर्वाह्न)
8.	श्री गणपति भट्ट	20-08-2013 (पूर्वाह्न)
9.	श्री विनय कुमार त्रिवेदी	10-09-2013 (पूर्वाह्न)
10.	श्री अर्जुन लिम्बाजी कांबले	20.08.2013 (पूर्वाह्न)
11.	श्री पंकज दुबे	23.08.2013 (पूर्वाह्न)
12.	श्री सीमा मजुमदार	27-08-2013
13.	श्री रमेश चन्द्र श्रीवास्तव	26-08-2013 (पूर्वाह्न)
14.	श्री इंद्रजीत सिन्हा	02-09-2013 (पूर्वाह्न)
15.	श्री गोपाल चन्द्र मजूमदार	04-03-2014 (पूर्वाह्न)
16.	श्री जी.पी.वी.एल. नरसिम्हा राव	11-10-2013 (पूर्वाह्न)
17.	श्री शान्तनु कुमार मिश्रा	03-03-2014 (अपराह्न)
18.	श्री दीपक कुमार मलिक	12.02.2014 (पूर्वाह्न)
19.	श्री मीणाकेतन धुवा	23-01-2014 (अपराह्न)
20.	श्री रामगोपाल मीणा	02-01-2014
21.	श्री विजय कुमार	06-01-2014 (पूर्वाह्न)
22.	श्री कमलजीत सिंह	29-04-2014 (पूर्वाह्न)

2. उपरोक्त अधिकारी की एसटीएस ग्रेड में पदोन्नति माननीय कैट, गुवाहाटी के समक्ष श्री बी.बी.सिंह सामंत (सेवानिवृत्त) द्वारा दायर कोर्ट केस संख्या ओए नं. 55/2012 तथा माननीय उच्च न्यायालय, कोलकाता के समक्ष श्री अजय कुमार (सेवानिवृत्त) द्वारा दायर डब्ल्यूपीसीटी नं. 15/2012 के परिणाम के शर्ताधीन होगी।

एस.के.सिंह, अवर सचिव

RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 1st July 2014

No. RS/8/2/2014/53-Perl.—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Dr. D. B. Singh, CSS (Retd.) in the rank and pay of Additional Secretary in the Rajya Sabha Secretariat for a period of one year on contractual basis w.e.f. 1st July, 2014.

S. RANGARAJAN, Jt. Dir.

PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 30th May 2014

No. A-12020/03/04-Adm.III—The President is pleased to terminate the services of Shri M.V.V.L.N Murthy, Additional Private Secretary to Dy. Chairman, Planning Commission w.e.f 31.05.2014(AN) after granting him a winding up period of 6 days, consequent upon the relinquishment of charge by Shri Montek Singh Ahluwalia as Dy. Chairman, Planning Commission w.e.f 26.05.2014(FN).

GULVEENA BADHAN, Under Secy.

The 2nd June 2014

No. A-11013/04/09-Adm.III—The President is pleased to terminate the services of Shri Shyam Lal, Private Secretary to Shri Saumitra Chaudhuri, Member, Planning Commission w.e.f 09.06.2014(AN) after granting him a winding up period of 15 days, consequent upon the relinquishment of charge by Shri Saumitra Chaudhari as Member, Planning Commission w.e.f 26.05.2014(FN).

GULVEENA BADHAN, Under Secy.

No. A-11013/10/2009-Adm.III—The President is pleased to terminate the services of Shri A.K Chakrabarti, Private Secretary to Sh. Arun Maira, Member, Planning Commission w.e.f 24.06.2014(AN) after granting him a winding up period of 30 days, consequent upon the relinquishment of charge by Sh. Arun Maira as Member, Planning Commission.

GULVEENA BADHAN, Under Secy.

No. A-11013/20/2012-Adm.III—The President is pleased to terminate the services of Shri Sanjeev Kumar Rao an outsider and Assistant Private Secretary to Minister of State (Parliamentary Affairs and Planning) w.e.f 24.06.2014(AN) after granting him a winding up period of 30 days, consequent upon the relinquishment of charge by Shri Rajeev Shukla as MoS (PA & P) w.e.f 26.05.2014(FN).

GULVEENA BADHAN, Under Secy.

No. A-12020/07/09-Adm.III—The President is pleased to terminate the services of Shri Kailasnath Adhikari an outsider and Private Secretary to Dr. Narendra Jadhav, Member, Planning Commission w.e.f 09.06.2014(AN) after granting him a winding up period of 15 days, consequent upon the relinquishment of charge by Dr. Narendra Jadhav as Member, Planning Commission w.e.f 26.05.2014(FN).

GULVEENA BADHAN, Under Secy.

No. A-12020/07/09-Adm.III—The President is pleased to terminate the services of Shri Sandeep Kamble an outsider and 1st PA to Dr. Narendra Jadhav, Member, Planning Commission w.e.f 09.06.2014(AN) after granting him a winding up period of 15 days, consequent upon the relinquishment of charge by Dr. Narendra Jadhav as Member, Planning Commission w.e.f 26.05.2014(FN).

GULVEENA BADHAN, Under Secy.

No. A-11013/20/2012-Adm.III—The President is pleased to terminate the deputation of Shri Harish Kumar a CSS officer and Additional Private Secretary to Minister of State (Parliamentary Affairs and Planning) w.e.f 24.06.2014(AN) after granting him a winding up period of 30 days, consequent upon the relinquishment of charge by Shri Rajeev Shukla as MoS(PA & P) w.e.f 26.05.2014(FN).

2. On termination of deputation Shri Harish Kumar is repatriated to Department of Personnel and Training w.e.f. 24.06.2014 (AN). He is directed to report to the DOP&T for his further posting.

GULVEENA BADHAN, Under Secy.

The 3rd June 2014

No. A-12020/03/04-Adm.III—The President is pleased to terminate the deputation of Shri H.S Chauhan, Assistant Private Secretary to Dy. Chairman, Planning Commission w.e.f 24.06.2014(AN) after granting him a winding up period of 30 days, consequent upon the relinquishment of charge by Sh. Montek Singh Ahluwalia as Dy. Chairman, Planning Commission w.e.f 26.05.2014(FN).

2. On termination of deputation Shri H.S Chauhan is repatriated to Admn. 3 Sections, Planning Commission.

GULVEENA BADHAN, Under Secy.

No. A-12020/06/04-Adm.III—The President is pleased to terminate the services of Shri Anil Kumar Rawat an outsider and 1st PA to Member(Dr. Syeda Hameed), Planning Commission w.e.f 24.06.2014(AN) after granting him a winding up period of 30 days, consequent upon the relinquishment of charge by Dr. Syeda Hameed as Member, Planning Commission w.e.f 26.05.2014(FN).

GULVEENA BADHAN, Under Secy.

No. A-12020/03/04-Adm.III—The President is pleased to terminate the services of Shri M.D Narula, Additional Private Secretary to Dy. Chairman, Planning Commission w.e.f 24.06.2014(AN) after granting him a winding up period of 30 days, consequent upon the relinquishment of charge by Shri Montek Singh Ahluwalia as Dy. Chairman, Planning Commission w.e.f 26.05.2014(FN).

GULVEENA BADHAN, Under Secy.

The 4th June 2014

No. A-11013/05/09-Adm.III—The President is pleased to terminate the deputation of Shri Rahulji Chenna, 1st PA to Dr. Abhijit Sen, Member, Planning Commission w.e.f 09.06.2014(AN) after granting him a winding up period of 15 days, consequent upon the relinquishment of charge by Dr. Abhijit Sen as Member, Planning Commission w.e.f 26.05.2014(FN).

2. On termination of deputation Shri Rahulji Chenna is repatriated to Ministry of Water Resources. He has been sanctioned 18 days Earned Leave w.e.f 10.06.2014 to 27.06.2014.

GULVEENA BADHAN, Under Secy.

No. A-11013/09/09-Adm.III—The President is pleased to terminate the deputation of Shri P. Shankar, Private Secretary to Sh. B.K Chaturvedi, Member, Planning Commission w.e.f 24.06.2014(AN) after granting him a winding up period of 30 days, consequent upon the relinquishment of charge by Sh. B.K Chaturvedi as Member, Planning Commission w.e.f 26.05.2014(FN).

2. On termination of deputation Shri P. Shankar is repatriated to Admn.3 Section, Planning Commission.

GULVEENA BADHAN, Under Secy.

No. A-11013/05/09-Adm.III—The President is pleased to terminate the deputation of Shri Rajesh Sharma, Private Secretary to Dr. Abhijit Sen, Member, Planning Commission w.e.f 24.06.2014(AN) after granting him a winding up period of 30 days, consequent upon the relinquishment of charge by Dr. Abhijit Sen as Member, Planning Commission w.e.f 26.05.2014(FN).

2. On termination of deputation Shri Rajesh Kumar is repatriated to Admn.3 Section, Planning Commission.

GULVEENA BADHAN, Under Secy.

No. A-11013/09/09-Adm.III—The President is pleased to terminate the deputation of Shri K. Krishna Rao, 1st PA to Sh. B.K Chaturvedi, Member, Planning Commission w.e.f 24.06.2014(AN) after granting him a winding up period of 30 days, consequent upon the relinquishment of charge by Sh. B.K Chaturvedi as Member, Planning Commission w.e.f 26.05.2014(FN).

2. On termination of deputation Shri K. Krishna Rao is repatriated to Admn.3 Section, Planning Commission.

GULVEENA BADHAN, Under Secy.

No. A-11013/05/09-Adm.III—The President is pleased to terminate the deputation of Shri D.Satheesh, 1st PA to Dr. Abhijit Sen, Member, Planning Commission w.e.f 09.06.2014(AN) after granting him a winding up period of 15 days, consequent upon the relinquishment of charge by Dr. Abhijit Sen as Member, Planning Commission w.e.f 26.05.2014(FN).

2. On termination of deputation Shri D. Satheesh is repatriated to Department of Agriculture and Cooperation, Ministry of Agriculture. He has been sanctioned 18 days Earned Leave w.e.f 10.06.2014 to 27.06.2014.

GULVEENA BADHAN, Under Secy.

The 5th June 2014

No. A-11013/13/09-Adm.III—The President is pleased to terminate the services of Ms. Sushila Panjwani, Private Secretary to Dr. C. Rangarajan, Chairman, Prime Minister's Economic Advisory Council w.e.f 24.06.2014(AN) after granting her a winding up period of 30 days, consequent upon the relinquishment of charge by Dr. C. Rangarajan as Chairman, PM's EAC w.e.f 26.05.2014(FN).

GULVEENA BADHAN, Under Secy.

No. A-11013/13/09-Adm.III—The President is pleased to terminate the services of Ms. Sarita Panjwani an outsider and Private Secretary in the personal staff of part time Members, Prime Minister's Economic Advisory Council w.e.f 24.06.2014(AN) after granting her a winding up period of 30 days, consequent upon the relinquishment of charge by Members, PM's EAC w.e.f 26.05.2014(FN).

GULVEENA BADHAN, Under Secy.

The 6th June 2014

No. A-12020/4/09-Adm.III—The President is pleased to terminate the deputation of Sh. Naveen Chand, 1st PA to Dr. K. Kasturirangan, Member, Planning Commission w.e.f 09.06.2014(AN) after granting him a winding up period of 15 days, consequent upon the relinquishment of charge by Dr. K. Kasturirangan as Member, Planning Commission w.e.f 26.05.2014(FN).

2. On termination of deputation Shri Naveen Chand is repatriated to Department of Scientific & Industrial Research, Ministry of Science & Technology.

GULVEENA BADHAN, Under Secy.

No. A-12020/4/09-Adm.III—The President is pleased to terminate the services of Sh. T.S Venkataramani, Private Secretary to Dr. K. Kasturirangan, Member, Planning Commission w.e.f 24.06.2014(AN) after granting him a winding up period of 30 days, consequent upon the relinquishment of charge by Dr. K. Kasturirangan as Member, Planning Commission w.e.f 26.05.2014(FN).

GULVEENA BADHAN, Under Secy.

New Delhi, the 27th June 2014

No. A-11013/3/09-Adm.III—In partial modification of Para-2 of Planning Commission's Notification of even number dt. 3rd June, 2014 Shri R.K Gambhir is repatriated to Department of Financial Services, Ministry of Finance w.e.f 24.06.2014(AN).

2. He has been sanctioned 6 days Earned Leave w.e.f 25.06.2014 to 30.06.2014.

T. NANDA KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(LEGISLATIVE DEPARTMENT)

New Delhi, the 6th June 2014

No.A.12025(i)/1/2007-Admn.I(L.D.)—The President is pleased to appoint Shri Udaya Kumara, Deputy Legislative Counsel (Grade-III of Indian Legal Service) in the Legislative Department, Ministry of Law and Justice to the post of Additional Legislative Counsel (Grade- II of Indian Legal Service) in the Pay Band of Rs.37400-67000/- plus Grade Pay of Rs.8700/- in the said Department of Ministry of Law and Justice on *ad hoc* basis for a period of three months with effect from the forenoon of 06.06.2014 or until further orders, whichever is earlier:—

2. This *ad-hoc* appointment will neither bestow on Shri Udaya Kumara any claim for regular appointment whatsoever to the grade of Additional Legislative Counsel (Grade II of ILS) nor the *ad hoc* services rendered by him will be counted for the purpose of seniority in the grade or for his promotion to the next higher grade.

B.M. SHARMA, Dy. Secy.

The 16th June 2014

No.A-32013/2/2012-Admn.I(L.D.): On the basis of recommendations of the Departmental Promotion Committee, the President is pleased to appoint the following Assistant Legislative Counsels (Grade IV of Indian Legal Service) to the posts of Deputy Legislative Counsel (Grade III of the ILS) in the Pay Band-3 of Rs.15600-39100/- plus Grade Pay of Rs. 7600/- in the Legislative Department, Ministry of Law and Justice on regular basis with effect from the forenoon of 16th June, 2014 and until further orders:—

(i) Shri R.K. Pattanayak

(ii) Shri K.V. Kumar

2. The above mentioned officers will be on probation for a period of two years with effect from the date of their appointment to the post of Deputy Legislative Counsel (Grade III of ILS) in this Department.

B.M. SHARMA, Dy. Secy.

The 27th June 2014

No.A-32013/2/2009-Admn.I(L.D.): In pursuance of the order dated 11.10.2013 passed by the Hon'ble Central Administrative Tribunal, Principal Bench, New Delhi O.A. No. 3594/2011 titled Dr. N.R. Battu Vs. Union of India and Others and on the basis of recommendations of the Review Departmental Promotion Committee held on 13.06.2014, the President, in supersession of notification of even number dated 13.08.2013 is pleased to appoint the following Deputy Legislative Counsels (Grade-III of Indian Legal Service) to the post of Additional Legislative Counsel (Grade-II of the Indian Legal Service) in the Pay Band-4 of Rs.37400-67000/- plus Grade Pay of Rs.8700/- in the Legislative Department, Ministry of Law and Justice on regular basis with effect from the forenoon of 12th August, 2013 and until further orders:-

(I) Shri K.R. Saji Kumar

(II) Shri Chander Veer

2. The above mentioned officers will be on probation for a period of two years with effect from 12.08.2013.

3. The date of appointment of Shri K.R. Saji Kumar to the post of Additional Legislative Counsel is subject to the outcome of the final decision of Special Leave Petition (SLP) (Civil) No.1177/2014 filed by him before the Supreme Court of India.

B.M. SHARMA, Dy. Secy.

No.A-32013/2/2009-Admn.I(L.D.): In pursuance of the order dated 11.10.2013 passed by the Hon'ble Central Administrative Tribunal, Principal Bench, New Delhi O.A. No. 3594/2011 titled Dr. N.R. Battu Vs. Union of India and Others and on the basis of recommendations of the Review Departmental Promotion Committee held on 13.06.2014, the President, in supersession of notification of even number dated 16.12.2011, is pleased to appoint Dr. N.R. Battu, Deputy Legislative Counsel (Grade III of Indian Legal Service) to the post of Additional Legislative Counsel (Grade II of the ILS) in the Pay Band-4 of Rs.37400-67000/- plus Grade Pay of Rs.8700/- in the Legislative Department, Ministry of Law and Justice on regular basis with effect from the forenoon of 14.12.2011 and until further orders.

2. The appointment of Dr. N.R. Battu to the post of Additional Legislative Counsel is subject to the outcome of the final decision of Special Leave Petition (SLP) (Civil) No.1177/2014 filed by Shri K.R. Saji Kumar, Additional Legislative Counsel before the Supreme Court of India.

B.M. SHARMA, Dy. Secy.

The 30th June 2014

No.A.12025(i)/1/2007-Pt.-Admn.I(L.D.): The President is pleased to appoint Shri Ishwar Chander Sharma, Assistant Legislative Counsel (Grade-IV of Indian Legal Service) in the Legislative Department, Ministry of Law and Justice to the post of Deputy Legislative Counsel (Grade III of Indian Legal Service) in the Pay Band of Rs.15600-39100 plus Grade Pay of Rs.7600/- in the said Department of Ministry of Law and Justice on *ad hoc* basis for a period of three months with effect from 30th June, 2014 or until further orders; whichever is earlier.

2. This *ad-hoc* appointment will neither bestow on him any claim for regular appointment whatsoever to the grade of Deputy Legislative Counsel (Grade III of ILS) nor the *ad hoc* services rendered by him will count for the purpose of seniority in the grade or for his promotion to the next higher grade.

B.M. SHARMA, Dy. Secy.

DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS

New Delhi, the 5th June 2014

No.A.12034/01/2013-Admn.IV(LA)—Consequent on demission of office by Shri Kapil Sibal as Minister for Law & Justice with effect from 26.05.2014, the services of Ms. Mamta Varma (IIS:94) Officer on Special Duty to the former Minister for Law & Justice (Shri Kapil Sibal) are placed at the disposal of Press Information Bureau, Ministry of Information & Broadcasting with effect from the date of joining duty on expiry of 60 days Earned Leave granted to her w.e.f. 19.5.14 to 18.7.14.

ASHA SOTA, Under Secy.

No.A.12034/01/2013-Admn.IV(LA)—Consequent on demission of office by Shri Kapil Sibal as Minister for Law & Justice with effect from 26.05.2014 and as per instructions contained in the Department of Personnel & Training O.M.No.8/50/2013-CS.II (C) dated 26.05.2014, Shri Alok Kumar, Assistant Private Secretary to the former Minister for Law & Justice (Shri Kapil Sibal) is granted winding up period of 30 days from 27.05.2014 to 25.06.2014.

2. Shri Alok Kumar shall report to the undersigned after expiry of winding up period.

ASHA SOTA, Under Secy.

The 30th June 2014

No.A-38012/01/2014-Admn.IV (LA)—On attaining the age of superannuation, Shri R. Ragupathi, Additional Secretary retires from Government Service with effect from the afternoon of 30th June, 2014.

ASHA SOTA, Under Secy.

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS

(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 9th July 2014

No.23012/5/2013-AIS-III—Smt. V. Shantha, IAS (TN) has been permitted to change her name from Smt. V. Shantha to Smt. V. Santha. She will accordingly be recognised as Smt. V. Santha for all official purposes.

NAVNEET MISRA, Under Secy.

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

OFFICE OF DEPUTY CHIEF OF PROTOCOL (F)

New Delhi, the 7th July 2014

No. DIII/460/CF-03/2014—The President of India is pleased to recognize the appointment of Mr. Sergey Lvovich Kotov as Consul General of the Russian Federation in Chennai with immediate effect.

The consular jurisdiction of Mr. Sergey Lvovich Kotov comprises the States of Tamil Nadu, Kerala, Karnataka, Andhra Pradesh and Union Territory of Puducherry with the seat in Chennai.

SANJEEV KHANDURI, Dy. Chief of Protocol (F)

MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 29th April 2014.

No. A-35011/1/2013-Ad.ED—The President of India is pleased to appoint Shri Kamlesh Kumar Gupta, Deputy Director, Risk Management Division(RMD), Mumbai, as Deputy Director of Enforcement, in the Directorate of Enforcement, Mumbai, in Pay Band 3 of Rs.15600-39100 + Grade Pay of Rs. 6,600/- on ad hoc deputation basis, initially for a period of 1 year, w.e.f. 3.2.2014(FN) to 1.2.2015(AN) or until further orders, whichever is earlier.

R.N. SINGH, Under Secy.

No. A-35011/1/2013-Ad.ED—The President of India is pleased to appoint Shri Vikas Singh, Deputy Director of Income Tax(Inv.), Unit-I(2), Delhi-1 as Deputy Director of Enforcement, in the Directorate of Enforcement, Delhi, in Pay Band 3 of Rs.15600-39100 + Grade Pay of Rs .6,600/- on ad hoc deputation basis, initially for a period of 1 year, w.e.f. 13.2.2014(FN) to 12.2.2015(AN) or until further orders, whichever is earlier.

R.N. SINGH, Under Secy.

New Delhi, the 31st May 2014

No.K-11022/9/2014-Ad.ED—With the approval of the Competent Authority in Department of Revenue, Shri Vivek Prasad, Joint Director of Enforcement, Lucknow is permitted to repatriate to his parent cadre, prematurely, on personal reasons, with effect from 31.5.2014(AN). He is also sanctioned Earned Leave for 60 days, w.e.f. 2.6.2014 to 31.7.2014.

RAJINDER KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi-110108, the 9th July 2014

No. A. 12025/06/2013-CHS.I—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Santvana Pandey in the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay of PB-3 (Rs. 15600-39100) + Grade Pay 5400/- in a temporary capacity with effect from the forenoon of 04.03.2014 until further orders. Dr. Santvana Pandey is posted as Medical Officer under Central Government Health Scheme, Delhi. Dr. Santvana Pandey shall be on probation for a period of two years.

M.K. SHARVAR, Under Secy.

The 14th July 2014

No.A.12025/158/2010-CHS.I—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Tarun Chandra to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay of PB-3 [Rs.15600-39100] + Rs.5400/-(Grade Pay) in a temporary capacity with effect from the forenoon of 22.10.2013 until further orders. Dr. Tarun Chandra is posted as Medical Officer under Central Government Health Scheme, Kanpur. Dr. Tarun Chandra shall be on probation for a period of two years from the date of appointment.

M.K. SHARVAR, Under Secy.

DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES

New Delhi, the 13th May 2014

No. A-38013/8/2013-Admn.-I—Shri Prakash Chandra, Technical Officer, of the Directorate General of Health Services retired from Government Service on attaining the age of superannuation on 31.03.2014 (A.N.).

JITENDER SINGH, Dy. Dir. (Admn.)

No. A-38012/7/2013-Admn.-I—Sh. Bakshi Ram, Director, of the Directorate General of Health Services retired from Government Service on attaining the age of superannuation on 31.03.2014 (A.N.).

JITENDER SINGH, Dy. Dir. (Admn.)

MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION)

New Delhi, the 20th June 2014

No.A-19012/4/2014-EA.—Consequent upon his promotion to the Grade-IV (JTS) of the IES and posting in the Commission for Agricultural Costs and Prices vide Ministry of Finance, Department of Economic Affairs' Order No.P-4/2014 dated 19.5.2014 in File No.13016/4/2014-IES, Dr. Sunil Kumar Gupta is appointed as Assistant Director in PB-3 Rs. 15,600-39,100 + 5,400/-(Grade Pay), in the Commission for Agricultural Costs and Prices, Department of Agriculture and Cooperation, w.e.f. 4.6.2014 (F.N.).

A.K. ARORA, Under Secy.

New Delhi, the 27th June 2014

No. 32013/6/2013-PP-Estt.—The President is pleased to appoint the following officers as Joint Director (Plant Pathology), General Central Service Group - A, in Pay Band 3 (Rs.15,600 - 39,100/-) plus Grade pay of Rs.7600/- on promotion basis in the Directorate of Plant Protection Quarantine and Storage, Faridabad until further orders.

1. Shri Shiv Sagar Verma w.e.f. 05.05.2014- (F/N)

2. Dr. V.K.Srivastava w.e.f. 01.05.2014- (F/N)

M.L. ATAL, Under Secy.

New Delhi, the 9th July 2013

CORRIGENDUM

No. 32013/02/2012-E.I.—Reference this Department's Notification of even number dated 28.10.2013.

The text at S.No. 8 may be read as 'Ashishkumar T. Bagde' in place of 'Ashish Kumar Tara Chand Bagde'.

BRAJESH GODRA, Under Secy.

MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ

New Delhi-110001, the 1st July 2014

No. A-11011/2/2014-Estt.—The President is pleased to appoint Ms. Sarada Muraleedharan Gomathi, IAS (KL:90) as Joint Secretary in Ministry of Panchayati Raj in the Pay Band (PB-4) Rs. 37400-67000 plus Grade Pay of Rs. 10,000/- with effect from the forenoon of 15th May, 2014.

R. SHIVA KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF ELECTRONICS AND INFORMATION & TECHNOLOGY)

New Delhi-110003, the 9th June 2014

No. 4(944)/14-Pers.I—The President is pleased to appoint Shri Kshitij Kushagra (E.Code-1118) as Scientist 'D' in the Pay Band-3, Rs. 15600-39100/- plus Grade Pay of Rs. 7600/- in a temporary capacity in the Department of Electronics & Information Technology with effect from the forenoon of 05.06.2014.

2. He will draw pay of Rs. 29500/- (including Grade Pay) in the above Pay Band and allowances as admissible under the rules and orders in force from time to time.

3. He will be on probation for a period of one year from the date of appointment.

VINOD KUMAR, Dy. Dir.

The 25th June 2014

No. 4(950)/14-Pers.I—The President is pleased to appoint Shri Rajeshwar Singh Janwar (E.Code-1125) as Scientist 'D' in the Pay Band-3, Rs. 15600-39100/- plus Grade Pay of Rs. 7600/- in a temporary capacity in the Department of Electronics & Information Technology with effect from the forenoon of 24.06.2014.

2. He will be on probation for a period of one year from the date of appointment.

VINOD KUMAR, Dy. Dir.

The 30th June 2014

No. 4(951)/14-Pers.I—The President is pleased to appoint Shri Nishit Gupta (E.Code-1126) as Scientist 'C' in the Pay Band-3, Rs. 15600-39100/- plus Grade Pay of Rs. 6600/- in a temporary capacity in the Department of Electronics & Information Technology with effect from the forenoon of 30.06.2014.

2. He will be on probation for a period of one year from the date of appointment.

VINOD KUMAR, Dy. Dir.

The 2nd July 2014

No. 4(952)/14-Pers.I—The President is pleased to appoint Dr. Sangeeta Semwal (E.Code-1127) as Scientist 'C' in the Pay Band-3, Rs. 15600-39100/- plus Grade Pay of Rs. 6600/- in a temporary capacity in the Department of Electronics & Information Technology with effect from the forenoon of 01.07.2014.

2. She will be on probation for a period of one year from the date of appointment.

VINOD KUMAR, Dy. Dir.

New Delhi, the 17th June 2014

No. 4(948)/14-Pers.I—The President is pleased to appoint Shri Vishwas Shrivastava (E.Code-1123) as Scientist 'B' in the Pay Band-3, Rs. 15600-39100/- plus Grade Pay of Rs. 5400/- in a temporary capacity in the Department of Electronics & Information Technology with effect from the forenoon of 16.06.2014.

2. He will draw pay of Rs. 21,000/- (including Grade Pay) in the above Pay Band and allowances as admissible under the rules and orders in force from time to time.

3. He will be on probation for a period of one year from the date of appointment.

GIRISH SAHAI, Jt. dir.

The 18th June 2014

No. 4(949)/14-Pers.I: The President is pleased to appoint Shri Naveen Kumar (E.Code-1124) as Scientist 'C' in the Pay Band-3, Rs. 15600-39100/- plus Grade Pay of Rs. 6600/- in a temporary capacity in the Department of Electronics & Information Technology with effect from the forenoon of 17.06.2014.

2. He will draw pay of Rs. 25,350/- (including Grade Pay) in the above Pay Band and allowances as admissible under the rules and orders in force from time to time.

3. He will be on probation for a period of one year from the date of appointment.

GIRISH SAHAI, Jt. dir.

MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT

New Delhi, the 8th July 2014

No. A-31011/04/2012-CLS.I— The President is pleased to appoint the following Junior Time Scale (JTS) Officers of Central Labour Service (CLS) on promotion as regular Senior Time Scale (STS) Officers in the pay Scale corresponding to

PB-3 (Rs. 15,600 -39,100) with Grade Pay of Rs. 6600/- with effect from the date as indicated against each:—

SL. NO.	NAME OF OFFICERS (S/Sh./Smt./Kum.)	DATE OF PROMOTION
1.	S. G. Sonwale	12-09-2013(FN)
2.	Karam Chand	02-09-2013
3.	Ambrish Sharma	20-08-2013(FN)
4.	Gattu Singh Rathore	18-09-2013(FN)
5.	V. Muthumanickam	23-12-2013(FN)
6.	Narayan Chandra Parida	07-10-2013(FN)
7.	Kulwant Singh Guru	27-09-2013(FN)
8.	Ganapathi Bhat	20-08-2013(FN)
9.	Vinay Kumar Trivedi	10-09-2013(FN)
10.	Arjun Limbaji Kamble	20-08-2013(FN)
11.	Pankaj Dubey	23-08-2013(FN)
12.	Seema Mujumdar	27-08-2013
13.	Ramesh Chandra Srivastava	26-08-2013(FN)
14.	Indrajit Sinha	02-09-2013(FN)
15.	Gopal Chandra Majumdar	04.03.2014(FN)
16.	G.P.V.L. Narasimha Rao	11-10-2013(FN)
17.	Santanu Kumar Mishra	03-03-2014(AN)
18.	Dipak Kumar Mallick	12-02-2014(FN)
19.	Minaketan Dhurua	23-01-2014(AN)
20.	Ram Gopal Meena	02-01-2014
21.	Vijay Kumar	06.01.2014(FN)
22.	Kamaljeet Singh	29-04-2014(FN)

2. The promotion of the above mentioned Officers to the STS Grade will be subjected to the outcome of the Court Case Nos. OA No. 55/2012 filed by Sh. B B Singh Samantha (since retired) before the Hon'ble CAT, Guwahati and W.P.C.T. No. 15/2012 filed by Shri Ajay Kumar (since retired) before the Hon'ble High Court, Calcutta.

S. K. SINGH, Under Secy.

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में
मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2014
PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS,
N.I.T. FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2014

www.dop.nic.in